



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श10)

(सं0 पटना 655) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 अगस्त 2011

सं0 22/नि0सि0(पट0)-3-16/2010/1018—श्री ब्रह्मदेव दूबे, (आई0 डी0-3327) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पटना नगर निगम, पटना सम्प्रति सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना निगरानी थाना कांड सं0-54/2010, दिनांक 21 जुलाई 2010 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं एवं उक्त निगरानी थाना कांड सं0 सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है एवं उक्त कांड में श्री दूबे के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

2. मामले की गंभीरता इसमें निहित नैतिक भ्रष्टता एवं उनके कर्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा इनके विरुद्ध दायर प्राथमिकी के अनुसंधानान्तर्गत होने के फलस्वरूप श्री ब्रह्मदेव दूबे, सहायक अभियन्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) (ग) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री ब्रह्मदेव दूबे का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, अनिसाबाद, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री दूबे को अनुमान्य जीवन यापन-भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 655-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>